



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EX RAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2005/माघ 13, 1926

No. 42]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2005/MAGHA 13, 1926

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 52(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुकबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस प्रतिस्थापन से पहले किए गए कार्यों अथवा किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर राजकीय कला कालेज, चण्डीगढ़ प्रशासन लेक्चरर (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1997 के प्रतिस्थापन में राष्ट्रपति, एतद्वारा राजकीय कला कालेज, चण्डीगढ़ में लेक्चरर के वर्ग 'क' पदों की भर्ती की प्रणाली के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और आरंभ होना : (1) इन नियमों को राजकीय कला कालेज, चण्डीगढ़ प्रशासन लेक्चरर, (वर्ग 'क') संशोधन भर्ती नियम, 2004 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान उसी प्रकार होंगे, जिस प्रकार इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पदों के लिए भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हताएं और तत्संबंधी अन्य मामले वही होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में निर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हताएं : कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध किया है अथवा विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के कुछ अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

5. रियायत देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक तथा उचित है, तो वह लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी को इन नियमों के किसी उपबंध के सम्बंध में रियायत दे सकती है।

6. व्यावृत्ति : केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	प्रवर्णन पद है अथवा नैर-प्रवर्णन पद	सीसी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या मिश्रित सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुमत्य है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आयु शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी अथवा नहीं।	परिचोषा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होनी अथवा पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती के अमेलन द्वारा	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे भर्तियों निम्नसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
1 लेक्चरर	2 21 (2004) कार्यभार के आधार पर घट-सह सकती है।	3 सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	4 8000-275-13500	5 लागू नहीं होता	6 अधिकतम 35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट। रिपब्लिकी: आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी कि (न असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,	7 जी हाँ।	8 अनिवार्य (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से ललित कला की किसी भी शाखा जैसे पेंटिंग/मूर्तिकला/आलेख या प्रिंट मेकिंग/अनुपुष्क या व्यावसायिक कला में एम0फिल/पी0एच0डी0 अथवा (ख) (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से ललित कला की किसी भी शाखा जैसे पेंटिंग/मूर्तिकला/आलेख या प्रिंटमेकिंग/अनुपुष्क या व्यावसायिक कला में स्नातकोत्तर डिग्री। (1) पद की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष का अनुसंधान व व्यावसायिक अथवा अध्ययन अनुभव। अथवा (ग) (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से ललित कला की किसी शाखा जैसे पेंटिंग/मूर्तिकला/आलेख	9 लागू होता	10 1 वर्ष	11 सीसी भर्ती (पदचारी के दूर प्रतिनियुक्ति जाने अथवा लम्बी अवधि तक सीमार रहने अथवा अध्ययन अवकाश पर जाने अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए रिक्रियण होने पर उन्हें नियोजना प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार के इन कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है। (1)(1)मूल संकेत/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदचारी, अथवा (1) मूल संकेत/विभाग 6500-10500 रूपए वाले अथवा समतुल्य वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर	12 लागू नहीं होता	13 समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (द्वितीय कदम के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) : 1. सचिव, वण्डीगढ़ प्रशासन: अध्यक्ष 2. निदेशक, जवर्नमेंट म्यूजियम एण्ड आर्ट गैलरी, वण्डीगढ़ सदस्य 3. प्रधानाचार्य, जवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट, वण्डीगढ़ सदस्य	14 संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के चम्पा जिले के लाहौल और स्पीति जिले तथा पामी उप-मण्डल, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप) के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।		या प्रिंट मेकिंग/अनुप्रयुक्त व कमासिविल आर्ट में स्नातक डिग्री (1) पद की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष का अनुसंधान और व्यावसायिक और या अव्यापन का अनुभव टिप्पणी-1 वह विषय/विशिष्टता जिसमें डिग्री/अनुभव अपेक्षित है उसे भर्ती के समय दर्शाया जाएगा। टिप्पणी-2 1) उन उम्मीदवारों के नामले में जो अन्यथा सुयोग्य हैं, संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार उनके योग्यता में छूट दे सकता है। टिप्पणी-3 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के नामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव में तमी छूट दी जा सकती है जब चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इस समुदाय से इसके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		नियुक्ति के बाद ब्रेड में नौ की गई पांच वर्ष की सेवा और (ख) कालम 8 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव प्राप्त हो (प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष होगी)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2)	लेखक (कला का इतिहास)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" (रजपत्रित)	8000-275-13500 रुपये	लागू नहीं होता	35 वर्षों से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारियों को पाँच वर्षों की छुट्टी) रिप्ली: आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि ही भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू, कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के ताहीन और	जी, हॉ	अनिवार्य 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से कक्षा इतिहास स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 अंकों के साथ उत्तम शैक्षिक रिकॉर्ड अथवा बाद में आने वाले ओ.ए.बी.सी.डी.ई. और एफ. ग्रेडों के साथ 7 विन्दमान में वी ग्रेड के समकक्ष ग्रेड 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित लेखक पद के लिए पात्रता (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्याशित समकक्ष परीक्षा पास की हो। पी.एच.डी. किसी चारक उम्मीदवारों के लिए भी लेखक के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी। तथापि उम्मीदवारों, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1993 तक एम फिल	लागू होता	नहीं	पदधारी के दूर प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लम्बी बीमारी अथवा अग्रज अवकाश अन्य कारणों से एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए होने वाली नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार के इन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है। (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी अथवा (ii) विभाग में 6500-10500 रुपये अथवा नियमित आधार पर नियुक्त होने के पश्चात् ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा पूरी करने वाले तथा (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव वाले प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक	लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति नियमित करने विचार करने गृह 1. सायब, चण्डीगढ़ प्रशासन -अध्यक्ष 2. निदेशक, राजकीय एवं संग्रहालय एवं कला सीमा, चण्डीगढ़-सदस्य 3. प्रधानाचार्य, राजकीय कला कॉलेज, चण्डीगढ़-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग परामर्श आवश्यक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						<p>स्पीति तया जिले तथा चम्बा के जिले के पांजी अप-मंडल अहमदन- निकोबार दीपसमूह और लक्षद्वीप) के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।</p>	<p>हिन्दी पूरी कर ली है या 31 दिसम्बर, 2002 तक हो उससे पहले संबंधित विषय पीएचडी शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर दिया है, को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाती है। इससे विपणी: अच्छी अवस्था प्राप्त अर्हता के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा के आयोग विवेकाबुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है।</p>		नहीं चाहिए।	होनी			

[फा.सं. 11-2/93-टी.डी.बी./टी.एस. II]

रवि माधुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Secondary and Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2005

G.S.R. 52(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Government College of Art, Chandigarh Administration, Lecturers (Group 'A') Recruitment Rules, 1997, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts of Lecturer's in the Government College of Arts, Chandigarh, namely:-

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Government College of Art, Chandigarh Administration, Lecturers (Group 'A') Amendment Recruitment Rules, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay

The number of posts, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to the rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment to the said posts, the age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification- No person

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living has entered into or contracted marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the rule.

5. Power to relax

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	Num ber of Post	Classifi- cation	Scale of Pay	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Education and other qualification required for direct recruits	Whether age & essential qualificati on, If any.	Period of probati on, If any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ bsorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumsta nces in which Union Public Service Commissi on to be consulted in making recruitment at
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Lecturer	21 (2004) Subject to varia- tion depend- ent on work- load.	General Central Service Group- 'A' Gazetted	Rs. 8000- 275- 13500	Not Applicable	Not exceeding 35 years [Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Yes	Essential a) M.Phil/ Ph.D in any branch of Fine Arts, such as painting/ sculpture/ graphics or print- making/ applied or commercial art from a recognised university/ institutions or equivalent; OR b) (i) Master's Degree in any branch of Fine Arts, such as painting/ sculpture/ graphics or print-making/ applied or commercial arts from a recognised University/ Institution or equivalent; (ii) one year research and professional or teaching experience depending on the requirement of the post. OR (c) (i) Bachelor's Degree in any branch of Fine Arts,	Not Applicable	One year	Direct Recruitment [Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more, may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) With five	Not Applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration - Chairman 2. Director, Govt. Museum and Art Gallery, Chandigarh - Member 3. Principal, Government College of Art, Chandigarh - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangri sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep))		such as painting/ sculpture/ graphics or print-making/ applied or commercial arts from a recognised University/ Institution or equivalent; ii) Three years research and professional or teaching experience depending on the requirement of the post. <u>Note 1:</u> The subject/ specialty in which the degree/ experience is required will be indicated at the time of recruitment. <u>Note 2:</u> Qualifications is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. <u>Note 3:</u> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the			years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/ Department, and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2) Lecturer (History of Art)	2 (2004) Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 8000-275-13500	Not Applicable	Not exceeding 35 years [Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Yes	<p>communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p> <p>Essential</p> <p>1. Good academic record with at least 55% of the marks or an equivalent grade of B in the 7 point scale with latter grades O, A, B, C, D, E and F at the Master's Degree level in History of Art from a recognised University or equivalent;</p> <p>2. Should have cleared the eligibility test (National Eligibility Test) for Lecturers conducted by University Grants Commission, Council of Scientific and Industrial Research or similar test accredited by the University Grants Commission.</p> <p>Note: National Eligibility Test shall remain the compulsory requirements for appointment as Lecturer even for candidates having Ph. D Degree. However, candidates who have completed M. Phil Degree by 31st December, 1993 or have submitted Ph. D thesis</p>	Not Applicable	Not Applicable	<p>Direct Recruitment</p> <p>[Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more, may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government.]</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the</p>	Not Applicable	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):</p> <p>1. Home Secretary, Chandigarh Administration - Chairman</p> <p>2. Director, Govt. Museum and Art Gallery, Chandigarh - Member</p> <p>3. Principal, Government College of Art, Chandigarh - Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission necessary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, division of J and K State, Lehwal and Spiti District and Pangri sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep))		concerned subject on or before 31 st December, 2002 are exempted from appearing in the National Eligibility Test examination. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified			Department, and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 36 years as on the closing date of the receipt of applications.)			

[F. No. 11-2/93-TD.V/T.S. II]
RAVI MATHUR, Jr. Secy.